

# MPDL LIMITED

---

December 05, 2025

**BSE Limited**

Phiroze Jeejibhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 001

**Scrip Code – 532723**

**Sub: Newspaper Publication- Postal Ballot Notice**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the Financial Express (All Edition, English Daily) and Jansatta (Delhi Edition, Hindi Daily), both dated December 05, 2025 in which intimation of Postal Ballot Notice for seeking approval of members for appointment of Mr. Sandeep Kumar (DIN: 07635851) as Non-Executive Independent Director of the Company have been published.

This is for your information and records.

**FOR MPDL LIMITED**

**BHUMIKA CHADHA**

**COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**

---

**Corporate office**

**Unit No-12,** GF, Magnum  
Towers Tower-1, Sector - 58,  
Golf Course Extn, Gurugram  
122011, Haryana

**Registered office**

11/7, Mathura Road,  
Sector - 37, Faridabad  
- 121003, Haryana

**CIN:** L70102HR2002PLC097001

**PAN:** AADCM3323Q

**GST Haryana:** 06AADCM3323Q1ZA

**GST Delhi :** 07AADCM3323Q1Z8

**Tel. :** 0124-4222434-35

**Email:** [isc\\_mpdl@mpdl.co.in](mailto:isc_mpdl@mpdl.co.in)  
info@mpdl.co.in

**Web:** [www.mpdl.co.in](http://www.mpdl.co.in)



**IDBI BANK LIMITED**

CIN L65190MH2004G0148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005

Phone-(022) 66553336 &amp; 66553062,

e-mail: idbiequity@idbi.co.in, website: www.idbibank.in

**ATTENTION SHAREHOLDERS****Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares**

Notice is hereby given to Shareholders that in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a Special Window has been opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.

This facility is available for transfer deeds that were lodged prior to April 01, 2019, but were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process or otherwise.

All transfer requests duly rectified and re-lodged during the aforesaid period will be processed through the transfer-cum-demat mode i.e the shares will be issued only in dematerialized form after transfer. The lodger(s) must have a demat account and provide the Client Master List (CML) along with the transfer documents, share certificate(s) and other necessary document(s) while lodging the documents to transfer with our RTA.

Eligible shareholders are requested to dispatch the documents to Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA):

KFin Technologies Ltd., (Unit: IDBI Bank Ltd), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032. [Toll Free No. 1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com]

After dispatching the documents shareholders are requested to simultaneously inform the Bank via email at idbiequity@idbi.co.in.

For IDBI Bank Limited  
(Jyothi Biju Nair)

Company Secretary

Membership No: A20554

Place: Mumbai

Date: December 05, 2025

**IDBI BANK LTD,**Reg. Office - IDBI Tower, WTC Complex,  
Cuffe Parade, Mumbai- 400005,  
CIN: L65190MH2004G0148838**Transfer of Stressed Loan Exposure**

IDBI Bank Limited (Bank) intends to Transfer the Stressed Loan Exposure of J and A Foundations Pvt Ltd and Jupiter Leys Pvt Ltd to the eligible permitted entities on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "without recourse" basis. Bank is proposing to undertake open Bidding Process on "all cash" basis to solicit binding bids in the form of irrevocable offers from eligible permitted entities in accordance with the regulatory guidelines issued by the RBI and all other relevant applicable laws.

For details please visit Bank's website www.idbibank.in. Click on Quick links> Notices & Tenders. For further details, you may contact at email-assignment@idbi.co.in.

The Bank reserves the right not to go ahead with the proposed transfer at any stage without assigning any reason. Bank reserves the right to accept or reject any bids.

**Place- Mumbai** **Deputy General Manager**  
**Date- 05.12.2025** **Corporate Office**  
**NPA Management Group**

**ASHIANA HOUSING LTD.**

CIN: L70109WB1986PLC040864

Regd. Off. : 5F, Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071

Head Off. : Unit No. 4 &amp; 5, Ilford Floor, Southern Park, Plot No. D-2

Saket District Centre, New Delhi - 110 017

Website: www.ashianahousing.com

Email: investorrelations@ashianahousing.com

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform to all concerned that the company has received requests along with necessary indemnity bond and affidavit from shareholder of the company to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, details of which is given herein below:

Sl. No.	Name of Regd. Shareholder	L.F. No.	Share Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
1.	Nirmala Verma C/o Uday Shankar Verma	10676	2111	3959251-3962750	3,500

Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate, any person who has objection on such issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.

For Ashiana Housing Ltd.

Sd/-

Nitin Sharma

(Company Secretary &amp; Compliance Officer)

Place : New Delhi

Date : 04.12.2025

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF****SOMA PAPERS AND INDUSTRIES LIMITED**

("SPIL" / "TARGET COMPANY" / "TC") (Corporate Identification No. L21093TS1991PLC200966)

Registered Office: S No.18, 3<sup>rd</sup> Floor, B Block, Win Win Hub, JNTU Hi Tech City Main Road, Madhapur, Khanameti, Rangareddy, Madhapur, Hyderabad, Shaikpet, Telangana, 500081;

Phone No. : +91- 7799009346; Email id: cssomapapers91@gmail.com; Website: www.somapapers.in

This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Shankar Varadarajan ("Acquirer-1") and Mr. Anantha Perumal Selvi Keshav ("Acquirer-2") (Acquirer-1 and Acquirer-2 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") along with Mr. Rohan Ramaswamy (PAC-1), Mr. Subramanyam Venkatesh (PAC-2) and Mr. Seethapathi Vignesh (PAC-3) (PAC-1, PAC-2 and PAC-3 hereinafter collectively referred to as the "PACs") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 4,26,58,200 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the expanded equity and voting share capital of the Target Company. The Offer Opening Public Announcement pursuant to Detailed Public Statement ("DPS") and the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers has appeared in Financial Express - English Daily (all editions), Jansatta - Hindi Daily (all editions), Pratahkaal - Marathi Daily (Mumbai edition), Mega Jyothi - Telugu Daily - (Telangana edition) on 27<sup>th</sup> November, 2025.

- Acquirers have completed the dispatch of the Physical Letter of Offer on 21<sup>st</sup> November, 2025 to such shareholders whose email addresses were not registered with Target Company pursuant to regulation 18(2) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations")
- It is reiterated that copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and also on the website of Manager to the Offer, [www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com).
- Shareholders who have not received the Letter of Offer can tender the shares in accordance with procedure described in clause 9.15 on 32 of Letter of Offer, which is reproduced as below:

**Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:**

Persons who have acquired equity shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified date, or those who have not received the letter of offer, may also participate in this Offer. A shareholder may participate in the Offer by approaching their broker and tender Equity shares in the Open Offer as per the procedure mentioned in this Letter of Offer or in the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement. The Letter of Offer along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement will be dispatched to all the eligible shareholders of the Target Company as on the Identified date. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such eligible shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)) or BSE website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) or Merchant Banker website ([www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com)) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity shares of the Target Company. Alternatively in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder, stating name, address, number of shares held, client id number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents such as physical share certificates and Form SH-4 in case of shares being held in physical form. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by the BSE before the closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

**ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS AND PACs****NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED**

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.

Tel No. : +91 22 4120 4837 / 4973 5078

Email id: [navigant@navigantcorp.com](mailto:navigant@navigantcorp.com)Website: [www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com)

SEBI Registration No: INM000012243

Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai

Date: December 04, 2025

**MPDL LIMITED**

Regd. Office: 11/7, Mathura Road, Sector 37, Faridabad HR 121003

Corp. Office: Unit No.12, GF, Magnum Tower-1 Sector - 58, Golf Course Extn. Gurugram-122011 HR Phone: 0124- 4222434-35

Email: [icg\\_mgdl@mpdl.co.in](mailto:icg_mgdl@mpdl.co.in) Website: [www.mpdl.co.in](http://www.mpdl.co.in), CIN: L70102HR2002PLC097001**POSTAL BALLOT NOTICE TO MEMBERS**

The members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act"), read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 & Secretarial Standard-I issued by the Institute of Company Secretaries of India and in terms of the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024 and 03/2025 dated September 22, 2025 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India (the "MCA Circulars"), the postal ballot notice seeking consent of the members through voting by electronic mode (remote e-voting) only has been sent by email to the members whose names appears in the Register of members as on the Cut Off Date i.e. Friday, November 28, 2025 for seeking approval of the Shareholders in relation to the below mentioned **Special Resolution:**

- Appointment of Mr. Sandeep Kumar (DIN: 07635851) as a Non-Executive Independent Director of the Company for a term of 5 consecutive years.

The detailed instructions and information relating to e-voting are set out in the postal ballot notice sent to the Members. The Company has completed dispatch of Notice of Postal Ballot on Thursday, December 04, 2025.

The facility to exercise vote on postal ballot by remote e-voting shall be available during the following period:

**Commencement of e-voting: Saturday, December 06, 2025 (9:00 A.M. IST)****End of e-voting: Sunday, January 04, 2026 (5:00 P.M. IST)**

Remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. on Sunday, January 04, 2026 and e-voting module shall be disabled thereafter.

The Company has made necessary arrangements with National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating remote e-voting to enable the Shareholders to cast their vote electronically pursuant to Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 through e-voting facility via [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The Company has appointed Mr. Kapil Dev Taneja, Company Secretary in practice (Certificate of practice No. 22994), partner of M/s Sanjay Grover & Associates (Registration No.P2001DE052900) as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. The result of the voting by Postal Ballot will be submitted to the Stock Exchange where the securities of the Company are listed on or before Tuesday, January 06, 2025 and will be posted on the website of the Company [www.mpdl.co.in](http://www.mpdl.co.in) and also on the website of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In compliance with the requirement of the MCA Circulars, the hard copy of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelope has not been sent to the Shareholders for this Postal Ballot and the shareholders are requested to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

A person whose name is recorded on the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on Friday, November 28, 2025 being the Cut-off Date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to the paid-up value of shares in the total voting capital of the Company as on the cut off date.

A person who is not a member as on the Cut-off Date should treat this notice for information purpose only.

In light of the MCA Circulars shareholders who have not registered their email address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may temporarily get their email registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited, by following the registration procedure as guided in the Postal Ballot Notice dated November 13, 2025.

For permanent registration/update of the email addresses, members may send the request with the relevant Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent - MCS Share Transfer Agent Limited (RTA) in case the shares held in physical form.

Those shareholders who have already registered their email address are requested to keep their email addresses validated through their Depository Participants / the Company's RTA to enable servicing of notices / documents/ Annual Reports electronically to their email address.

Any member who have any query/grievances connected with the postal ballot/ e-voting may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

For MPDL Limited

Sd/-

Bhumika Chadha

Company Secretary

Date : 05.12.2025

Place : Gurugram

**FORM 6  
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR  
SION PANVEL TOLLWAYS PRIVATE LIMITED  
OPERATING IN OPERATIONS AND MAINTENANCE OF TOLL ROADS AT  
PUNE / MUMBAI, MAHARASHTRA  
(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India  
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)****RELEVANT PARTICULARS**

1. Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/LLP No.	Sion Panvel Tollways Private Limited CIN: U45203PN2009PTC134473
2. Address of the registered office	"WIRCL House", 35 Suyojana, C.H.F. Koregaon Park, Pune-411001.
3. URL of website	Not available
4. Details of place where majority of fixed assets are located	Since the Corporate Debtor is in business of road construction, there are no major tangible assets available in the company.
5. Installed capacity of main products/ services	Not available
6. Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Revenue: Nil As per audited financial statement for Financial Year 2024-25
7. Number of employees/ workmen	No employee on role since Insolvency Commencement Date
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	Can be sought by sending request to Resolution Professional at: <a href="mailto:crisp.sptpl@gmail.com">crisp.sptpl@gmail.com</a>
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	Can be sought by sending request to Resolution Professional at: <a href="mailto:crisp.sptpl@gmail.com">crisp.sptpl@gmail.com</a>
10. Last date for receipt of expression of interest	20/12/2025
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	22/12/2025
12. Last date for submission of objections to provisional list	27/12/2025
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	31/12/2025
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	01/01/2026
15. Last date for submission of resolution plans	31/01/2026
16. Process email id to submit Expression of Interest	<a href="mailto:crisp.sptpl@gmail.com">crisp.sptpl@gmail.com</a>
17. Details of the corporate debtor's registration status as MSME	NA

Note: Current invitation in this revised Form 6 is basis the approval received in the 45<sup>th</sup> Meeting of Committee of Creditors held on 04-December-2025.

**Place: Mumbai****Date: 05/12/2025****Resolution Professional for Sion Panvel Tollways Private Limited**

IBBI/PA-001/IP-P01047/2017-2018/11730

Dreams Complex, 4C-1605, LBS Marg, Bhandup West, Mumbai-400078

Email ID - [crisp.sptpl@gmail.com](mailto:crisp.sptpl@gmail.com)

Sanjay Kumar Mishra

Sd/-

Email ID - [crisp.sptpl@gmail.com](mailto:crisp.sptpl@gmail.com)**LOTUS CHOCOLATE COMPANY LIMITED**Regd. Office: 8-2-596, 1<sup>st</sup> Floor, 1B, Sumedha Estates, Avenue - 4,

Puzzolana Towers, Street No.1, Road. No. 10, Banjara Hills, Hyderabad,

Telangana-500 034. Tel: 91 40 4020 2124;

Email: [investors@lotuschocolate.com](mailto:investors@lotuschocolate.com); Website: [www.lotuschocolate.com](http://www.lotuschocolate.com);

CIN: L152007GT1988PLC009111

**NOTICE TO SHAREHOLDERS****SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES**

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025 on the captioned subject, please note that the Special Window for re-lodgement of transfer deeds will be open till January 06, 2026.

This facility is available only if the transfer deeds were lodged prior to April 01, 2019 and were rejected / returned due to deficiency in the documents.

In case you wish to avail the opportunity, please contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited (Unit: Lotus Chocolate Company Limited) at their office at Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

The shares that are re-lodged for transfer, if approved, will be issued only in demat mode and shall be under lock-in for a period of 6 months from the date of transfer.

For further information please refer the link for SEBI Circular <https://tinyurl.com/sebicul25> or send an email to [lotusinvestor@kfintech.com](mailto:lotusinvestor@kfintech.com)

For Lotus Chocolate Company Limited

Sd/-

Utsav Saini

Company Secretary and Compliance Officer

Place: Hyderabad

Date: December 05, 2025

Company Secretary and Compliance Officer

**SHANTI OVERSEAS (INDIA) LIMITED**

CIN: L7410MP2011PLC025607

Regd. Off. No. 10, Khajuri Bazar, Raj Mohalla, Indore (M.P.) - 452002

Email: [cs@shantioverseas.com](mailto:cs@shantioverseas.com) Website: [www.shantioverseas.com](http://www.shantioverseas.com) Ph.: +91731 4020586**Public Notice - 14<sup>th</sup> Annual General Meeting**

This is to inform that the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM"/ "the Meeting") of the Members of **M/s. Shanti Overseas (India) Limited** ("The Company") will be held on Tuesday, December 30, 2025, through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility provided by MUGF Intime India Pvt. Ltd. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with the applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time to transact the businesses as set out in the Notice convening the 14<sup>th</sup> AGM.

The e-copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 of the Company will be available on the website of the Company at [www.shantioverseas.com](http://www.shantioverseas.com). Additionally, the Notice of AGM will also be available and may be accessed from the relevant section of the website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Members can attend and participate in the AGM only through the V/OAVM facility, the details of which will be provided by the company in the Notice of AGM. Members attending the meeting through V/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent ("Registrar"/ "RTA")/ Depository Participants ("DPS"). As per SEBI Circular, physical copies of the 14<sup>th</sup> AGM Notice and Annual Report will not be sent to any shareholders. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. MUGF Intime India Pvt. Ltd. at [investor.helpdesk@in.mugs.mugf.com](mailto:investor.helpdesk@in.mugs.mugf.com) along with Self-Attested copy of PAN Card.

The shareholders will have an opportunity to cast their vote through electronic means either during the remote e-voting period before the meeting or at the AGM. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered email addresses will be provided in the Notice to the shareholders.

By Order of the Board of Directors of

For Shanti Overseas (India) Limited

Sd/-

Marish Harishankar Dubey

Managing Director

DIN: 09582612

Date: December 05, 2025

Place: Indore

**ICI Prudential Asset Management Company Limited**

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12<sup>th</sup> Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

Corporate Office: ICI Prudential Mutual Fund Tower, Vokola, Santacruz East,

Mumbai - 400 055; Tel: +91 22 6647 0200/2652 5000 Fax: +91 22 6666 6582/83,

Website: [www.icicpruamc.com](http://www.icicpruamc.com), Email id: [enquiry@icicpruamc.com](mailto:enquiry@icicpruamc.com)Central Service Office: 2<sup>nd</sup> Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313





**कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (न्यायिक)**  
**कमरा सं. 162-ए, केंद्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली**  
**दूरभाष एवं फैक्स : 23379308, ईमेल: [delhi.cit.judicial@incomtax.gov.in](mailto:delhi.cit.judicial@incomtax.gov.in)**

---

**फा.सं.- प्र.-आयकर आयुक्त (न्या.)/एन.सी.एल.टी. मामलों/2025-26/1264 दिनांक: 04.12.2025**

**एन.सी.एल.टी. मामलों में मामलों के प्रकाशन के संबंध में सूचना**

निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को इन कंपनियों के पुनरुद्धार से संबंधित एनसीएलटी मामलों/मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन हेतु सूचना दी जाती है, जिनकी सुनुवाई माननीय राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष नीचे दी गई तालिका में कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित तिथियों पर निर्धारित है:-

क्रम सं.	मामला सं. और मामला का शीर्षक	पिछले ज्ञात निदेशकों के नाम	अगली सुनुवाई की तारीख	न्यायालय संख्या
1	अपील संख्या 95/252/एनडी/2025 आयकर अधिकारी, वार्ड 23(1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (शॉपशॉप ग्लोबल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, पैन: ABDCS7803G)	1. श्री विपिन कुमार (डीआईएन: 08763317) 2. श्री सचिन अरोड़ा (डीआईएन: 08763319)	10.12.2025	5
2	अपील संख्या 97/252/एनडी/2025 आयकर अधिकारी, वार्ड 9(1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (फ़्यूरो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पैन: AADCFO786G)	1. श्रीमती प्रियंका जैन (डीआईएन: 07803063) 2. श्री अजय शर्मा (डीआईएन: 07779035)	10.12.2025	5
3	अपील संख्या 104/252/एनडी/2025 एसीआईटी (ओएसडी), वार्ड 19(3), दिल्ली बनाम आरओसी और (पारदर्शी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड पैन: AAEC6P804C)	1. श्रीमान वेन यू यू (डीआईएन: 02484927) 2. श्री श्रेंग शिवगु (डीआईएन: 02484896)	21.01.2026	5

**भवदीय**  
**हस्ता/-**  
**(होरा लाल)**  
**आयकर अधिकारी**  
**(न्यायिक)-3, नई दिल्ली**

फॉर्म नं. आईएनपीसी-26

[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्र सरकार/उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के सम्मक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और  
कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले में

और

एलीटर्कॉन इंटर्नेशनल लिमिटेड के मामले में, पंजीकृत कार्यालय एएलटीएफ 101, टीआर-442, ओखला 4 मंजिल, 101, एनएच-19, सीआरआरआई, ईश्वर नगर, ओखला, तुगलकाबाद, नई दिल्ली 110044 में है।

..... याधिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 29.08.2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेडल ऑफ एंजोस्टिगेशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शब्धयत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2थी तल पं.डीनदयाल अंबोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर पहुंचा सकता है या पहुंचाए जाने का कारण बन सकता है या भेज सकता है और इसकी एक प्रतिलिपि पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के निम्नालिखित तले पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए -

एलीटर्कॉन इंटर्नेशनल लिमिटेड  
कार्यालय: एएलटीएफ 101, टीआर-442, ओखला 4 मंजिल, 101, एनएच-19, सीआरआरआई, ईश्वर नगर, ओखला, तुगलकाबाद, नई दिल्ली 110044

एलीटर्कॉन इंटर्नेशनल लिमिटेड  
के लिए और उसकी ओर से  
हस्ता .....  
विपिन शर्मा  
प्रबंध निदेशक  
आईआईएन: 01739519

प्रस्ताव: 04.12.2025  
स्थान : नई दिल्ली

**फार्म नं. आईएनसी-26**  
कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम  
30 के अनुसार]

क राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत  
कार्यालय के नाम पर परिवर्तन के लिए समाचार पत्र  
प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

कंपनी अधिनियम, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम,  
2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगम)  
नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के संबंध

और

एनटीसीबी इंडिया हाइड्रो लिमिटेड जिसका  
कार्यालय जे-21, विंग बल्बू उद्योग नगर  
औद्योगिक क्षेत्र, पौराण्डी के पास, उत्तर पश्चिम  
दिल्ली-110041 में स्थित है, के मामले में, **...याचिकाकर्ता**

तत्पश्चात आना जनता को सूचित किया जाता है कि

कंपनी के राधानाथी क्षेत्र दिल्ली से तत्पश्चात राधानाथी  
और के पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए  
एक कंपनी को समक्ष बनाने के लिए 30 सितंबर,  
2025 को आमंत्रित याचिका आमरण में पारित  
किया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के मेमोरेण्डम  
कंपनी अधिनियम के परिवर्तन को पुष्टि के लिए  
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के  
अनुसार आवेदन कंपनी केन्द्र सरकार के पास

आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित  
परिवर्तन से वित्त बिक्री याचिका का हित प्रभावित होगा,  
जो वे आपसी उद्देश्य के पंजीकृत कार्यालय जे-21, विंग  
बल्बू उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र, पौराण्डी के पास,  
उत्तर पश्चिम दिल्ली-110041 में आवेदन  
कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ स राजना के  
प्रकाशन को अधिनियम के तहत प्रभावित है।  
कंपनी के प्रमुख याचिका के कारणों का उल्लेख  
आवेदन हुए एक शिथिल पत्र द्वारा समर्पित आदेश  
प्राप्त।

आवेदन क्षेत्रीय निदेश, उत्तरी क्षेत्र के को-21,  
मंग, 2 रा तल, पं. दीनदत्त अंबोदीय भवन,  
एनजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-110003 में भेजा  
है। या आना कार्य या पंजीकृत डाक से भेजा  
है।

05 दिसंबर, 2025

स्थान: दिल्ली

सूचना

हम अपने प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों, गणपतियों और जनसमूहों को सूचित करना चाहते हैं कि बीबीसी लाइव, २४ घंटे प्रतिदिन वार्तापूर्ण सूचनाएं, भाई और सिंग जॉन, २४ घंटे प्रतिदिन - ११००११ में स्थित हमारी साइट २ से ३ महीने के अंदर बंद हो जाएगी। आपसे हमें आप ध्यान देने और लेखक/लेखिका और दाता संबंधी सहायता सहित अपनी प्रतिनिधित्व के लिए उपयोग करने वाले हस्तलिखित कलेक्टेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे निदेशकाल कार्यालय तक पहुंचने की आवश्यकता, बीबीसी, भारत, आईसीआईएलआईआईसी के ऊपर, एप-२६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF**

# **SOMA PAPERS AND INDUSTRIES LIMITED**

("SPIL"/ "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L21093TS1991PLC200966)

**Registered Office: S No.18, 3<sup>rd</sup> Floor, B Block, Win Win Hub, JNTU Hi Tech City Main Road, Madhapur, Khanamet, Rangareddy, Madhapur, Hyderabad, Shaikpet, Telangana, 500081;**

**Phone No.: +91- 7799009346; Email id: [cssomapapers91@gmail.com](mailto:cssomapapers91@gmail.com); Website: [www.somapapers.in](http://www.somapapers.in)**


This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Shankar Varadharajan ("Acquirer-1" and Mr. Anantha Perumal Selvi Keshav ("Acquirer-2") (Acquirer-1 and Acquirer-2 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") along with Mr. Rohan Ramaswamy (PAC-1), Mr. Subramanyam Venkatesh (PAC-2) and Mr. Seethapathi Vignesh (PAC-3) (PAC-1, PAC-2 and PAC-3 hereinafter collectively referred to as the "PACs") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 4,26,58,200 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the expanded equity and voting share capital of the Target Company. The Offer Opening Public Announcement pursuant to Detailed Public Statement ("DPS") and the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers has appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratitkaal - Marathi Daily (Mumbai edition); Mega Jyothi - Telugu Daily - (Telangana edition) on 27<sup>th</sup> November, 2025.

- Acquirers have completed the dispatch of the Physical Letter of Offer on 21<sup>st</sup> November, 2025 to such shareholders whose email addresses were not registered with Target Company pursuant to regulation 18(2) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations").
- It is reiterated that copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and also on the website of Manager to the Offer, [www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com).
- Shareholders who have not received the Letter of Offer can tender the shares in accordance with procedure described in clause 9.15 on 32<sup>nd</sup> of Letter of Offer, which is reproduced as below:

**Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:**

Persons who have acquired equity shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified date, or those who have not received the letter of offer, may also participate in this Offer. A shareholder may participate in the Offer by approaching their broker and tender equity shares in the Open Offer as per the procedure mentioned in this Letter of Offer or in the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement. The Letter of Offer along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement will be dispatched to all the eligible shareholders of the Target Company as on the Identified date. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such eligible shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)) or BSE website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) or Merchant Banker website ([www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com)) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity shares of the Target Company. Alternatively in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder, stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents such as physical share certificates and Form SH-4 in case of shares being held in physical form. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by the BSE before the closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

<b>ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS AND PACS</b>	
 <p style="font-size: small; text-align: center;">Navigant Research &amp; Analytics</p>	<p><b>NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED</b></p> <p>804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.</p> <p><b>Tel No.:</b> +91 22 4120 4837 / 4973 5078</p> <p><b>Email id:</b> <a href="mailto:navigant@navigantcorp.com">navigant@navigantcorp.com</a></p> <p><b>Website:</b> <a href="http://www.navigantcorp.com">www.navigantcorp.com</a></p> <p><b>SEBI Registration No:</b> INM000012243</p> <p><b>Contact person:</b> Mr. Sarthak Vijiani</p>

**Place:** Mumbai  
**Date:** December 04, 2025

**"गुपत्र सं. आईएनसी-26"**  
 नई दिल्ली (हिमांशु) विम्वर, 2014 के गुपत्र 30 के अनुसार मे  
 केनीय प्रवाशन, डेवेंद्र निरंजन  
 के सम्बन्ध, उन्नीश, नई दिल्ली  
 केनीय अतिरिचण, 2013 के धारा 13 की प्रमाण  
 (4) और सम्बन्ध (विमान) विम्वर, 2014 के विम्वर  
 30 के प्रमाण (5) के खण्ड (क) के मागले में  
 और  
**पैसिकाफा होटलस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**  
 CIN : U45101DL2006PTC4274670  
 केनीय नैजिरीयन कर्मचारी : डी-18, स्टार फ्लोर  
 -विंग, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ्लैट-1, नई  
 दिल्ली-110020 में निवास है।  
 ...याचिकाकर्ता  
**सूचना**  
 गुपत्र जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी  
 निम्न प्रकार से सम्बन्ध की है। विम्वर, 2013 की  
 धारा 13 के अन्तर्गत अदालत का प्रमाण करने के  
 लिये, अतिरिचण का रजिस्ट्रार कर्मचारी "राजेश  
 राजमणी कोट्टे दिल्ली" को "उत्तर प्रदेश राज्य"  
 के निवासी के रूप में सूचित किया गया है।  
 याचिकाकर्ता कंपनी के लिए प्रमाण 19 अप्रैल, 2025  
 को याचिका अदालत सामान्य क्षेत्र में परिशि  
 स्तित सत्र के सत्र के अन्त में कंपनी के मैनेजिंग डायरे  
 क्टर के रूप में सम्बन्ध की पुष्टि को मांग करेगा।  
 निम्न के रजिस्ट्रार कार्यालय के अनुसार सम्बन्ध  
 में यदि किसी व्यक्ति का पता प्रमाणित होता है तो वह  
 व्यक्ति को याचिकाकर्ता प्रेषण करना होगा।  
**आईएनसी-21** ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) में विमान उन्नी  
 श प्रमाण है या गुपत्र नए नए विम्वर के अनुसार डिस्ट का  
 प्रमाण और उन्नीश प्रमाण का प्रमाण प्रमाणित  
 गुपत्र अन्तर्गत अन्तर्गत विम्वर को इस प्रकार से  
 प्रमाणित करनी है, यी-2 विम्वर, डिम्वर, उत्तर प्रदेश  
 राज्य, सीओओ कोल्कता, नई दिल्ली-110003 पर  
 प्रमाणित करने का दायरा प्रमाण प्रमाण है या सुपुर्द  
 करनी है जो इस प्रमाण प्रमाण प्रमाण को उन्नीश  
 प्रमाणित रजिस्ट्रार कार्यालय के पता पर भी प्रमाण।  
 गुपत्र पैसिकाफा होटलस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
 (हस्ताक्षर)  
 निदेशक  
 आईएनसी : 03.12.2025  
 डीआईएन : 0039460

**सार्वजनिक सूचना**  
इस सूचना के माध्यम से हर आम व  
खास को सूचित किया जाता है इस  
कार्यालय में श्री कैलाश चन्द्र निवासी  
मकान 14 जवाहर नगर माल रोड  
चकरनाल द्वारा सम्पत्ति कर आई0डी0 न  
1EQ1MJC2 स्थित 14 जवाहर नगर  
चकरनाल में नाम दर्ज करने बारे आवेदन  
किया है। सम्पत्ति कर रिकार्ड अनुसार  
उपरोक्त सम्पत्ति कर आई0डी0 न  
1EQ1MJC2 में बिना नाम के दर्ज  
है, तथा घनश्याम दास शर्मा की मृत्यु  
दिनांक 17-03-2020 को चुकी है।  
यन्त्री द्वारा इस कार्यालय में नाम  
तब्दील करने हेतु एक प्रलेख/वसीयत  
नं 357 दिनांक 11-08-2010 तथा  
अख्यत पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः  
यदि किसी आमजन या खासजन को  
इस वसीयत अनुसार सम्पत्ति कर  
आई0डी0 1EQ1MJC2 स्थित  
मकान 14 जवाहर नगर में श्री कैलाश  
चन्द्र निवासी मकान 14 जवाहर नगर  
चकरनाल का नाम तब्दील करने हेतु  
किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस  
कार्यालय में नोटिस प्रकाशन की तिथि  
से 30 दिनों के अन्दर 2 अपनी  
आपत्ति/एतराज दर्ज करवा सकते हैं।  
अन्यथा समावधि पश्चात माना जायेगा  
कि उपरोक्त तब्दील बारी किसी को इस  
कार्यत्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस  
कार्यालय के सम्पत्ति कर में संश्लिष्ट  
युनिक सम्पत्ति कर आई0 डी0 न0  
1EQ1MJC2 में आवेदन का नाम  
तब्दील/तब्दील कर दिया जायेगा।  
समावधि पश्चात कोई भी क्लेम मान्य  
नहीं होगा।  
क्षेत्रिय कारधान अधिकारी  
नगर निगम चकरनाल।

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIL  
कंपनी के शेयरधारकों को एतद्वा  
दस्तावेजों/ प्रक्रिया में कमी/या अ  
पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक वि  
तक छह माह की एकाधिक के लि  
शेयर केवल डीमैट रूप में जारी कि  
पात्र शेयरधारकगण निर्धारित समया  
इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, का  
प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक, एल  
011-494411000 और ई-मेल पता-  
विशेष विडो के उद्घाटन से संबंधित  
हैं और यदि कोई और अपडेट होगा  
नोट : सभी शेयरधारकों से अनुरोध  
किए जाते हैं।

**सूचना**

**लेमिटेड के भौतिक द्रोहरों के हस्तांतरण अनुरोधों को  
प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो**

SD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के अनुसारण में, सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले प्रस्तुत किए गए तथा कारणों से अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/अविचारित हस्तांतरण विलेखों को विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो 07 जुलाई 2025 से 06 जनवरी 2026 खोली गई है। इस विंडो के दौरान हस्तांतरण के लिए पुनः प्रस्तुत किए गए जाएंगे।

के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने हस्तांतरण अनुरोध एमयूएफजी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आटीए) नोबल हाइट्स, प्रथम तल, ससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, संर्क नंबर : investor.helpdesk@in.mpmis.mufd.com पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

विवरण कंपनी की वेबसाइट [www.infoedge.in](http://www.infoedge.in) पर भी प्रसारित किए जा रहे तो उसे वहां अपलोड किया जाएगा।

कि वे कंपनी/आटीए/डिर्पांजिटर प्रतिभागियों के पास अपनी ईमेल आईडी निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते इन्को (इंडिया) लिमिटेड

जाया माहिट्या

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

सदस्यता सं: E33211

**एमपीडीएल लिमिटेड**

रजि. कार्यालय: 11/7, मधुरा रोड, सेक्टर 37 फरीदाबाद, हरियाणा 121003  
 कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 12, ज्योति, मेनम टावर-1 सेक्टर - 58, गोलक कोर्ट एक्सटेंशन, गुलाबगंज-122011  
 फोन: 0124-422434-35; ईमेल: [isc\\_mpdcl@mpdcl.co.in](mailto:isc_mpdcl@mpdcl.co.in) वेबसाइट: [www.mpdcl.co.in](http://www.mpdcl.co.in);  
 सीआईएस: L70102HD2002PCL097001

**सदस्यों को पोस्टल वोट बलट सूचना**

सदस्यों को, एलटीद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 और अन्य कानून प्रावधानों के अनुसार, यथासंभवित ('अधिनियम') और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी संचिपबन्ध मानक-स्कड और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमएसई'), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्र ('एमएसई परिपत्र') के संदर्भ में, नीचे उल्लिखित विशेष संकल्प के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए पोस्टल वोट नोटिस के जेवर इलेक्ट्रॉनिक मोड (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान के माध्यम से सदस्यों की सहभागिता मांगने के लिए उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजा गया है जिन्हें कानून कंड अधिकार के साथ अधिकृत किया गया है।

\* लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संदीप कुमार (डीआईएन: 07635851) की नियुक्ति।

ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश और जानकारी सदस्यों को भेजे गए पोस्टल वोट बलट नोटिस में दी गई है। कंपनी ने गुरुवार, 04 दिसंबर, 2025 को पोस्टल वोट की सूचना भेजने का काम पूरा कर दिया है।

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल वोट पर वोट डालने की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

ई-वोटिंग की शुरुआत: शनिवार, 04 दिसंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे वा.मा.स.)

ई-वोटिंग की समाप्ति: रविवार, 04 जनवरी, 2026 (शाम 5:00 बजे वा.मा.स.)

रविवार, 04 जनवरी, 2026 को शाम 05:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद ई-वोटिंग मांडलू अक्षम कर दिया जाएगा।

भारतीय प्रभुत्व और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता अधिनियम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए नेशनल सिस्टीमेटिज डिजिटल रिमोटिंग ('एनएसईएस') के साथ आवश्यक व्यवस्था की है ताकि शेयरधारक [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

कंपनी ने पोस्टल वोट/ई-वोटिंग सुविधा निष्पादण एप पराशरी तकिके से संबन्धित करने के लिए मरसस संजय गवर एंड एसोसिएट्स (पंजीकृत संस्था P2001DE052900) के पार्टनर, कंठिनी सचिव (प्रीक्रेष संरक्षितिकर नंर 229944) की कप्तित देव तनजो को संवीकृत ('संवीकृत') के रूप में नियुक्त किया है। पोस्टल वोट द्वारा मतदान का परिणाम मंगलवार, 06 जनवरी, 2026 को या उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जाएगा जहां कंपनी की प्रभुत्वियां सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट [www.mpdcl.co.in](http://www.mpdcl.co.in) तथा साथ ही एनएसईएस की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी वोट की जाएगी।

एमएसई परिपत्रों की आवश्यकता के अनुपालन में, पोस्टल वोट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के साथ पोस्टल वोट नोटिस की हार्ड कॉपी इस पोस्टल वोट नोटिस के लिए शेयरधारकों को नहीं भेजी गई है और शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने निर्देशों या असहमति को जानकारी केवल रिमोट ई-वोटिंग प्लानली के माध्यम से दें।

कॉई व्यक्ति जिसका कंड-ऑफ थियर अर्थात शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर या डिजिटल रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए लाभगोभी रखावियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठने का हकदार होगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना अधिनियम के अनुसार कंपनी की कुल वोटिंग पूंजी में शेयरों के भुगान किए गए मूल्य के अनुपात में की जाएगी।

कॉई व्यक्ति जो कंड-ऑफ थियर पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल कुल वोट के डेब्रेय से लेना चाहिए।

एमएसई परिपत्रों के आलोक में जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप पोस्टल वोट नोटिस प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे 13 नवम्बर, 2025 के पोस्टल वोट नोटिस में निर्देशित परिपत्र प्रक्रिया का पालन करके कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएसईएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के साथ अस्थायी रूप से अपना ईमेल पंजीकृत करवा सकते हैं।

ईमेल पता के रथायी पंजीकृत/अवतन के लिए, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में संबंधित डिजिटल पांरिसिपेंट को और भीमल रूप में धारित शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट - एमएसईएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीई) को अनुरोध भेज सकते हैं।

जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पहले ही पंजीकृत कर लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पता को अपने डिजिटल प्रतिपांरिसिपेंट / कंपनी के आरटीई के साथ मान्य रखें ताकि उनका ईमेल पता पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस/देवतावेध/वांछित रिपोर्ट की सर्वसिंधि सक्षम हो सके।

कॉई भी सदस्य जिसके पास पोस्टल वोट/ई-वोटिंग से संबंधित कॉई प्रश्न/शिकायत है, वह [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुपात पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders और e-voting user manual for Shareholders देख सकता है या 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल कर सकता है या सुश्री पल्लवी हात्रे को [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेजे।

**लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, वायव्य मण्डल, 23, वायव्यमार्ग, नई दिल्ली-110001  
ई-मेल: [info@landmarkproperty.in](mailto:info@landmarkproperty.in), वेबसाइट: [www.landmarkproperty.in](http://www.landmarkproperty.in)  
सीआरएफ: L13100017976PLC188942, फोन नं.: 011-436321020, फैक्स नं.: 011-41501333

**भौतिक शैश्यों के अंतरंग अनुसंधानों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो**

नोटिफिकेशन नं. SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के अनुसार, पदस्थानों पर सेवा प्रदाताओं को सूचना किया जाता है कि भौतिक शैश्यों के अंतरंग अनुसंधानों को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए 7 जुलाई 2025 से 6 जनवरी 2026 तक एक खाली की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

इस सूचना केवल उन अंतरंग विंडोवालों के लिए उपयुक्त है जो 1 अक्टूबर 2019 से पहले द्वारा किए गए थे और जिन्होंने निम्नलिखित व्याख्या की। अन्य कारणों से कर्मियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था, या निरूपण पर ध्यान नहीं दिया गया था।

नोटिफिकेशन नं. 31 मार्च 2021 को दिल्ली सचिव सचिवालय को चूक दिया था, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के निदेशपत्र एजेंडा सेक्टर अंतर्गत "आरटीआई" कागजात में सही मैनेजमेंट सॉल्यूशंस (के) लिमिटेड, रोहिंद कंठ, 5वीं मंजिल, 20, आर एन एम ब्रुकर रोड, कोलकाता-700001, भारत, ई-मेल: [rtia@cbmls.com](mailto:rtia@cbmls.com) को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अस्वीकार का काम स्थगित करें। इस अवधि के दौरान, अंतरंग अनुसंधानों को पुनः प्रस्तुत की गई अनुमतिवाला विंडो खोली गई है जारी की जाएगी। आरटीआई के पास अंतरंग अनुसंधानों को पुनः प्रस्तुत करती संस्था, निदेशपत्र के पास एक सीक्रेट डिवाइस होना चाहिए और उसे अंतरंग दस्तावेजों, शेरर प्रमाण पत्र और अन्य प्रसंगिक दस्तावेजों के साथ अपनी जगहों पर मास्टर लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

6 जनवरी 2026 के द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरंग अनुसंधानों/आरटीआई द्वारा स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

**निदेशक मंडल के आदेश से**  
**लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए**  
हस्ता- /  
अधिक भागीदा  
कंपनी सचिव

नई दिल्ली  
4 दिसंबर, 2025

**जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड**  
सीआईएफ: L35911HR1965PL0004485  
पंजी. कार्यालय: राज सिन्धु रोड, औद्योगिक क्षेत्र, मुमुना नगर - 135001, हरियाणा  
दूरभाष: 0129-4006885; वेबसाइट: [www.jaispring.com](http://www.jaispring.com)  
ईमेल आईडी: [investor.relations@jaispring.com](mailto:investor.relations@jaispring.com)  
**भौतिक शैश्यों के हस्तांतरण अनुसंधानों को पुनः दर्ज करने**  
**के लिए विशेष विंडो खोला**  
एलट्राना सूचित किया जाता है कि सेबी परिषद संस्था SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, भौतिक शैश्यों के हस्तांतरण कार्यों को फिर से जमा करने के लिए 7 जुलाई 2025, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह (6) महीने की एक विशेष विंडो शुरू की गई है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले कंपनी /आरटीआई में छह (6) महीने के लिए थे और जिनके अंतर्गत कर्मियों को कर्मियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था या उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। पात्र निदेशपत्र 6 जनवरी, 2026 को या उससे पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेरर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीआई") के पास ऐसे हस्तांतरण कार्यों को फिर से जमा कर सकते हैं। निदेशपत्र को एलट्राना सूचित किया जाता है कि एक विशेष के अनुसार, हस्तांतरण के लिए विशेष विंडो खोली गई है अनुसंधान-सह-डीमैट के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल डीमैट रूप में जारी की जाएगी। निदेशक मंडल विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आरटीआई से भी संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का विवरण निम्नलिखित है: रक्षा इलाका फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, डी-153 ए, प्रथम तल, ओल्हावा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन: 011-40450193, ईमेल: [grievances@skylinertia.com](mailto:grievances@skylinertia.com); [parveen@skylinertia.com](mailto:parveen@skylinertia.com)

**मनदीरी**  
**जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए**  
हस्ता- /  
प्रवीण लखरा  
कंपनी सचिव एव विधि प्रमुख

निदेशक: फरीदाबाद  
दिनांक: 04 दिसंबर, 2025

लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सीआईएन : L29120UP1987PLC091016

पंजीकृत कार्यालय : ए 603 एफ 604, 6वीं मंजिल, टैलर ए ,  
लॉजिक्स टेक्नोपा, सेक्टर 132, महर्षि नगर, गीता मंडू नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, 201304

ईमेल : [neerajgupta@lelectric.com](mailto:neerajgupta@lelectric.com), वेबसाइट : [www.lelectric.com](http://www.lelectric.com)

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा की जानकारी की सूचना

एतद्वारा यी सूचना जाती है कि लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") की वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), 29 दिसंबर, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा / अन्य ऑडियो विड्युअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नानुसार आयोजित की जानी है:

वित्तीय वर्ष	एजीएम क्रम सं.	दिन और तारीख	समय	मोड	कट-ऑफ तारीख	ई-वोटिंग तारीख
वित्त् वर्ष 2018-19	32वीं एजीएम		10.00 पूर्वाह्न (आईएसटी)			शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2025, 09.30 पूर्वाह्न (आईएसटी) से
वित्त् वर्ष 2019-20	33वीं एजीएम		11.00 पूर्वाह्न (आईएसटी)			से
वित्त् वर्ष 2020-21	34वीं एजीएम	सोमवार,	12.00 अपराह्न (आईएसटी)			28 दिसंबर, 2025
वित्त् वर्ष 2021-22	35वीं एजीएम	29 दिसंबर, 2025,	02.00 अपराह्न (आईएसटी)	वीसी / ओएवीएम	23 दिसंबर, 2025	शाम 05.00 (आईएसटी) तक
वित्त् वर्ष 2022-23	36वीं एजीएम		03.00 अपराह्न (आईएसटी)			
वित्त् वर्ष 2023-24	37वीं एजीएम		04.00 अपराह्न (आईएसटी)			
वित्त् वर्ष 2024-25	38वीं एजीएम		05.00 अपराह्न (आईएसटी)			

एमसीए / सेबी परिपत्रकों के साथ पहिले, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राधान्यों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, संबंधित नोटिसों में निर्धारित अनुसार सदस्यों की सामान्य स्थल पर मौलिक उपस्थिति के बिना व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी। परिपत्रकों के अनुपालन में, 32वीं, 33वीं, 34वीं, 35वीं, 36वीं, 37वीं और 38वीं एजीएम की सूचनाएं और वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी / डिजिटल रिपोर्ट प्रतियाँ/प्रतियाँ के साथ उनके द्वारा पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजकर, 28 नवंबर, 2025 को या उससे पहले भेज दी गई हैं। संबंधित परिपत्रकों के माध्यम से सदस्यों को सूचना की मौलिक प्रति भेजने की आवश्यकता सामान्य कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना की गई है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट [www.lelectric.com](http://www.lelectric.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेगनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), तथा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता लिमिटेड स्टैंडर्ड डिजिटल रिपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध होगी।

कंपनी उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि तक शेयर बाजार अपने सदस्यों को आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अपने मत का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य बैठक स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक निष्पत्ति गणनीता का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं (ई-वोटिंग)। कंपनी ने दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों और उसके निम्नलिखित के अनुसार विवरण अपवाद सनमें के लिए उपर दिए गए हैं।

सदस्यों का मतदान अधिकार कंपनी की चुनकी इन्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा, जो अंतिम तिथि पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि तक शेयर धारक है, वह [helpdesk.evoting.cdslindia.com](http://helpdesk.evoting.cdslindia.com) या [admin@skynilnetra.com](mailto:admin@skynilnetra.com) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों को केवल सूचना के उद्देश्य से ही सूचना चाहिए।

"सदस्य कृपया ध्यान दें कि: (ए) एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी, (बी) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपर उल्लिखित समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी, (सी) सीडीएसएल प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग की सुविधा ई-एजीएमपर ही उपलब्ध होगी, (डी) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग किया है, वे भी ई-एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। (ई) वोट व्यक्ति जिसका मत सदस्यों के रजिस्टर में या डिजिटल डिवाइस द्वारा बनाए गए लगामाई मतकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीखों पर दर्ज है, ई-एजीएम के लिए वोट के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। (एफ) व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है, उसके दिन नोटिफ को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए लेना चाहिए।" पीसीएस फर्म की आदेशा एएसएसएल के मालिक सीएस आकाश गोपाल (एस7213) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रीनग्राउंड नियुक्त किया गया है।

ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वोटिंग में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) स्टैंडर्ड डिजिटल रिपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए-पिंग, 25<sup>वां</sup> मंजिल, मेरुधन प्रभुवर एस, मकतलाल मिल कापडर एसएमएन जोशी मार्ग, लोहार प्रदे, (पीएच)ई-400013 से संपर्क कर सकते हैं या [helpdesk.evoting.cdslindia.com](http://helpdesk.evoting.cdslindia.com) पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 210991 पर कॉल कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, कृपया एजीएम की सूचना देखें।

यदि आपके पास रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध श्रेयशरारों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता निर्देशिका देखें।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ई-एजीएमपर में भाग लेने या ई-एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अनुरोध है कि वे बॉर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति स्क्रीनग्राउंड को [cs.goelakash@gmail.com](mailto:cs.goelakash@gmail.com) पर ई-मेल द्वारा भेजें, जिसकी एक प्रति सीडीएसएल को [helpdesk.evoting.cdslindia.com](http://helpdesk.evoting.cdslindia.com) और कंपनी को [info@lelectric.com](mailto:info@lelectric.com) पर भिजित की जाए।

बैठक के समापन पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राधान्यों के साथ सेबी (एगेंडोआईआर) प्रिनसिम 2015 के विनियम 44 के अनुसार परिणाम घोषित किए जाएंगे। ईईई कंपनी की वेबसाइट [www.lelectric.com](http://www.lelectric.com), सीडीएसएल वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) और नेगनल स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेगनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर पोस्ट किया जाएगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से  
लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  
हस्ताक्षरकर्ता /—  
नीरज गुप्ता, प्रबंध निदेशक  
डीआईएन/डीआईओ

दिनांक: 4 दिसंबर, 2025,  
नोएडा, उत्तर प्रदेश